



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 2008/वैशाख 20, 1930

No. 174]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 2008/VAISAKHA 20, 1930

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2008

सं. 41-प्रेज/2008.—भारत की राष्ट्रपति निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करती हैं :-

पद्म विभूषण

1. न्यायमूर्ति (डॉ.) आदर्श सैन आनन्द, लोक-कार्य, उत्तर प्रदेश ।
2. डॉ. ई. श्रीधरन, विज्ञान और इंजीनियरी, दिल्ली ।
3. श्री लक्ष्मी निवास मित्तल, व्यापार और उद्योग, यूनाइटेड किंगडम ।
4. प्रो. पी.एन. धर, लोक-कार्य, दिल्ली ।
5. डॉ. राजेन्द्र कुमार पचौरी, विज्ञान और इंजीनियरी, दिल्ली ।
6. श्री रतन नवल टाटा, व्यापार और उद्योग, महाराष्ट्र ।
7. श्री विश्वनाथन आनन्द, खेल-कूद, तमिलनाडु ।

पद्म भूषण

1. उस्ताद असद अली खाँ, कला, दिल्ली ।
2. श्री बाबा नीलकंठ कल्याणी, व्यापार और उद्योग, महाराष्ट्र ।
3. मियाँ बशीर एहमद, लोक-कार्य, जम्मू और कश्मीर ।

4. डॉ. (सुश्री) इंद्रजीत कौर, सामाजिक कार्य, पंजाब ।
5. श्री जसदेव सिंह, कमेंटरी और प्रसारण, दिल्ली ।
6. श्री कंटिपूडि पद्मनाभय्या, सिविल सेवा, दिल्ली ।
7. प्रो. कौशिक बसु, साहित्य और शिक्षा, अमेरिका ।
8. प्रो. लार्ड मेघनाद जगदीशचन्द्र देसाई, लोक-कार्य, यूनाइटेड किंगडम ।
9. प्रो. निर्मल कुमार गांगुली, चिकित्सा, दिल्ली ।
10. डॉ. (श्रीमती) पी. सुशीला, कला, तमिलनाडु ।
11. प्रो. (श्रीमती) पद्मा देसाइ, साहित्य और शिक्षा, अमेरिका ।
12. श्री रवीन्द्र केलेकर, साहित्य और शिक्षा, गोवा ।
13. श्रीमती सुनीता विलियम्स, अन्तरिक्षयानिकी, अमेरिका ।
14. श्री सुरेश कुमार नेवटिया, व्यापार और उद्योग तथा सामाजिक कार्य, दिल्ली ।
15. प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सक्सेना, कला, दिल्ली ।
16. श्री वि. रामचन्द्रन, सिविल सेवा, केरल ।
17. श्री यूली मिखाइलोविच वोरोन्तसोव (मरणोपरान्त), लोक-सेवा, रूस ।

पद्म श्री

1. डॉ. अहैबम जयेन्ता कुमार सिंह, चिकित्सा, मणिपुर ।
2. प्रो. अमिताभ मट्टू, साहित्य और शिक्षा, जम्मू और कश्मीर ।
3. सुश्री बरखा दत्त, पत्रकारिता, दिल्ली ।

4. श्री भाइचुंग भूटिया, खेल-कूद, सिक्किम ।
5. प्रो. भोलाभाई पटेल, साहित्य और शिक्षा, गुजरात ।
6. प्रो. कन्नीगैपेर उथमरायन वेलमुरुगेन्द्रन, चिकित्सा, तमिलनाडु ।
7. श्रीमती कोलेट माथुर, लोक-कार्य, स्विट्जरलैंड ।
8. श्री गेनादि मिखाइलोविच पेचनिकोव, कला, रूस ।
9. डॉ. पंडित गोकुलोत्सवजी महाराज, कला, मध्य प्रदेश ।
10. श्री हंस राज हंज, कला, पंजाब ।
11. श्रीमती हैस्नाम साबित्री, कला, मणिपुर ।
12. डॉ. इन्दु भूषण सिन्हा, चिकित्सा, बिहार ।
13. श्री जवाहर वत्तल, कला, दिल्ली ।
14. प्रो. के. एस. निसार अहमद, साहित्य और शिक्षा, कर्नाटक ।
15. हाजी कलीम उल्लाह खां, आम-बागान और रोपण, उत्तर प्रदेश ।
16. कुमारी करूणा मैरी ब्रगेंडा, सामाजिक कार्य, महाराष्ट्र ।
17. प्रो. (डॉ.) कस्तुरी लाल चोपड़ा, विज्ञान और इंजीनियरी, दिल्ली ।
18. श्री केकु मिनोचेर गांधी, कला, महाराष्ट्र ।
19. डॉ. कूटिकुप्पला सूर्या राव, सामाजिक कार्य, आन्ध्र प्रदेश ।
20. श्री मदन मोहन सभरवाल, सामाजिक कार्य, दिल्ली ।
21. श्रीमती माधुरी दीक्षित नेने, कला, महाराष्ट्र ।
22. श्री मनोज नाइट श्यामलन, कला, अमेरिका ।
23. प्रो. मोहन चन्द्र पंत, चिकित्सा, उत्तर प्रदेश ।
24. गुरु मूषिककुलम कोच्चुकुट्टन चाक्यार, कला, केरल ।
25. डॉ. राकेश कुमार जैन, चिकित्सा, उत्तराखण्ड ।
26. डॉ. संत सिंह विरमानी, विज्ञान और इंजीनियरी, अमेरिका ।
27. डॉ. (श्रीमती) शीला बरठाकुर, सामाजिक कार्य, असम ।
28. डॉ. सीर्कालि जी. सिवचिदाम्बरम्, कला, तमिलनाडु ।
29. प्रो. सुखदेव किसनराव थोरात, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली ।
30. श्री सूर्या कान्त हजारिका, साहित्य और शिक्षा, असम ।
31. श्री टॉम आल्टर, कला, महाराष्ट्र ।
32. श्री वेल्लूरु रामचन्द्र गौरीशंकर, सामाजिक कार्य, कर्नाटक ।
33. प्रो. वेंकटेश्वर राव, कला, आन्ध्र प्रदेश ।
34. मुहम्मद युसूफ टेंग, साहित्य और शिक्षा, जम्मू और कश्मीर ।

क्रिस्टी फेर्नान्डेज, राष्ट्रपति के सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2008

No. 41-Pres/2008.—The President of India is pleased to confer the following awards :

Padma Vibhushan

1. Justice.(Dr.) Adarsh Sein Anand, Public Affairs, Uttar Pradesh.
2. Dr. E. Sreedharan, Science and Engineering, Delhi.
3. Shri Lakshmi Niwas Mittal, Trade and Industry, United Kingdom.
4. Prof. P. N. Dhar, Public Affairs, Delhi.
5. Dr. Rajendra Kumar Pachauri, Science and Engineering, Delhi.
6. Shri Ratan Naval Tata, Trade and Industry, Maharashtra.
7. Shri Viswanathan Anand, Sports, Tamil Nadu.

Padma Bhushan

1. Ustad Asad Ali Khan, Art, Delhi.
2. Shri Baba Neelkanth Kalyani, Trade and Industry, Maharashtra.
3. Mian Bashir Ahmad, Public Affairs, Jammu & Kashmir.
4. Dr. (Ms.) Inderjit Kaur, Social Work, Punjab.
5. Shri Jasdev Singh, Commentary & Broadcasting, Delhi.
6. Shri Kantipudi Padmanabhaiah, Civil Service, Delhi.
7. Prof. Kaushik Basu, Literature and Education, USA.
8. Prof. Lord Meghnad Jagdishchandra Desai, Public Affairs, United Kingdom.
9. Prof. Nirmal Kumar Ganguly, Medicine, Delhi.
10. Dr. (Smt.) P. Susheela, Art, Tamil Nadu.
11. Prof. (Smt.) Padma Desai, Literature and Education, USA.
12. Shri Ravindra Kelekar, Literature and Education, Goa.
13. Mrs. Sunita Williams, Astronautics, USA.
14. Shri Suresh Kumar Neotia, Trade and Industry & Social Work, Delhi.

15. Prof. (Dr.) Sushil Kumar Saxena, Art, Delhi.
16. Shri V. Ramachandran, Civil Service, Kerala.
17. Mr. Yuli M. Vorontsov (Posthumous), Public Affairs, Russia.
- Padma Shri**
1. Dr. Aheibam Jayanta Kumar Singh, Medicine, Manipur.
2. Prof. Amitabh Mattoo, Literature and Education, Jammu & Kashmir.
3. Ms. Barkha Dutt, Journalism, Delhi.
4. Shri Bhaichung Bhutia, Sports, Sikkim.
5. Prof. Bholabhai Patel, Literature and Education, Gujarat.
6. Prof. Cannigaiper Uthamaroyan Velmurugendran, Medicine, Tamil Nadu.
7. Mrs. Colette Mathur, Public Affairs, Switzerland.
8. Mr. Gennadi Mikhailovich Pechnikov, Art, Russia.
9. Dr. Pandit Gokulotsavji Maharaj, Art, Madhya Pradesh.
10. Shri Hans Raj Hans, Art, Punjab.
11. Smt. Heisnam Sabitri, Art, Manipur.
12. Dr. Indu Bhushan Sinha, Medicine, Bihar.
13. Shri Jawahar Wattal, Art, Delhi.
14. Prof. K.S. Nisar Ahmed, Literature and Education, Karnataka.
15. Haji Kaleem Ullah Khan, Mango Plantation and Grafting, Uttar Pradesh.
16. Kumari Karuna Mary Braganza, Social Work, Maharashtra.
17. Prof. (Dr.) Kasturi Lal Chopra, Science and Engineering, Delhi.
18. Shri Kekoo M. Gandhi, Art, Maharashtra.
19. Dr. Kutikuppala Surya Rao, Social Work, Andhra Pradesh.
20. Shri Madan Mohan Sabharwal, Social Work, Delhi.
21. Smt. Mdhuri Dixit Nene, Art, Maharashtra.
22. Mr. Manoj Night Shyamalan, Art, USA.
23. Prof. Mohan Chandra Pant, Medicine, Uttar Pradesh.
24. Guru Moozhikkulam Kochukuttan Chakyar, Art, Kerala.
25. Dr. Rakesh Kumar Jain, Medicine, Uttarakhand.
26. Dr. Sant Singh Virmani, Science and Engineering, USA.
27. Dr. (Smt.) Sheela Barthakur, Social Work, Assam.
28. Dr. Sirkazhi G. Siva Chidambaram, Art, Tamil Nadu.
29. Prof. Sukhadeo Kisanrao Thorat, Literature and Education, Delhi.
30. Shri Surjya Kanta Hazarika, Literature and Education, Assam.
31. Shri Tom Alter, Art, Maharashtra.
32. Shri Vellur Ramachandra Gowrishankar, Social Work, Karnataka.
33. Prof. Yella Venkateswara Rao, Art, Andhra Pradesh.
34. Mohammed Yusuf Taing, Literature and Education, Jammu & Kashmir.
- CHRISTY FERNANDEZ, Secy. to the President